

रनियूबल एनर्जी कॉन्क्लेव

चर्चा में क्यों?

3 मार्च, 2023 को के जयपुर में आरआरईसीएल, राजस्थान राज्य वदियुत प्रसारण नगिम लमिटिड तथा इकोनॉमिक टाइम्स के संयुक्त तत्वावधान में रनियूबल एनर्जी कॉन्क्लेव आयोजित हुआ।

प्रमुख बदि

- रनियूबल एनर्जी कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री अशोक गहलोट ने बताया कि राज्य सरकार की नविश के अनुकूल नीतियों से राजस्थान आज अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में देश में प्रथम स्थान पर है।
- उन्होंने बताया कि नविशक राज्य में सौर ऊर्जा के साथ पवन ऊर्जा, हाईब्रिड संयंत्र और ग्रीन हाईड्रोजन परियोजनाएँ स्थापित करने के लिये आगे आ रहे हैं। राज्य सरकार अक्षय ऊर्जा संयंत्रों के लिये जरूरी उपकरणों का निर्माण राजस्थान में ही करवाने के लिये प्रतिबद्ध है ताकि पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार भी सृजित हो सके।
- मुख्यमंत्री ने बताया कि अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान में अपार संभावनाएँ हैं। देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क भड़ला (जोधपुर) में स्थित है। पूरे देश में अक्षय ऊर्जा में उत्कृष्ट प्रदर्शन के कारण वर्ष 2022 में राजस्थान को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार दिया गया है एवं आरआरईसीएल को राष्ट्रीय स्तर पर अक्षय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा पुरस्कृत किया गया है।
- कॉन्क्लेव के दौरान राज्य सरकार एवं नविशकों के बीच एमओयू हस्ताक्षरित हुए। राज्य सरकार एवं टोरेट पावर लमिटिड के मध्य अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में हस्ताक्षरित हुए एमओयू से राज्य में 37 हजार करोड़ रुपए का नविश आएगा तथा 6150 रोजगार सृजित होंगे।
- इसके अलावा वेलस्पन न्यू एनर्जी लमिटिड और राज्य सरकार के बीच अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में साइन हुए एमओयू से प्रदेश में 50 हजार करोड़ रुपए का नविश आएगा तथा 2250 लोगों को रोजगार मिलेगा।
- इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने एनर्जी सेक्टरल पोर्टल लॉन्च किया। इस पोर्टल के माध्यम से ऊर्जा से संबंधित सभी जानकारियाँ एक ही स्थान पर मिल सकेंगी। पोर्टल पर 11 विभागों के डेटा उपलब्ध हैं एवं इसे मुख्यमंत्री कार्यालय की आईटी टीम द्वारा बनाया गया है।